



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 27—फरवरी 2, 2007 (माघ 7, 1928)
No. 4] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 27—FEBRUARY 2, 2007 (MAGHA 7, 1928)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

भाग I--खण्ड-1--(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	33	भाग II--खण्ड-3--उप-खण्ड (iii)--भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	*
भाग I--खण्ड-2--(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	71	भाग II--खण्ड-4--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग I--खण्ड-3--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	1	भाग III--खण्ड-1--उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	61
भाग I--खण्ड-4--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	203	भाग III--खण्ड-2--पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस	73
भाग II--खण्ड-1--अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*	भाग III--खण्ड-3--मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	*
भाग II--खण्ड-1क--अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*	भाग III--खण्ड-4--विधिक अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	65
भाग II--खण्ड-2--विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*	भाग IV--गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस	121
भाग II--खण्ड-3--उप-खण्ड (i)--भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	*	भाग V--अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूर्ण	*
भाग II--खण्ड-3--उप-खण्ड (ii)--भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	*		

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

	Page No.		Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	33	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	71	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	1	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	61
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	203	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	73
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the Authority of Chief Commissioners	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language of Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	65
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	121
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules including Orders, Bye-laws, etc. of general character issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*	PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*		

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

वस्त्र मंत्रालय

विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय

नई दिल्ली-110066, दिनांक 5 जनवरी 2007

संकल्प

सं. के-12012/5/16/2006-पी एण्ड आर 6056-अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड का पुनर्गठन, दिनांक 8 सितम्बर, 2006 के समसंख्यक संकल्प के तहत 2 वर्ष की अवधि के लिये किया गया था। भारत सरकार ने निम्नलिखित अभ्यर्थियों को नये गैर-सरकारी सदस्यों के रूप में अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड में शामिल करने का निर्णय लिया है जबकि 8 सितम्बर, 2006, 23 अक्टूबर, 2006, 22 नवम्बर, 2006, 27 नवम्बर, 2006, 5 दिसम्बर, 2006 12 दिसम्बर, 2006 एवं 21 दिसम्बर, 2006 एवं 22 दिसम्बर, 2006 के संकल्प के तहत गठित मौजूदा अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड के सभी सरकारी एवं गैर-सरकारी सदस्य यथावत बने रहेंगे :-

2. श्री धर्मेन्द्र सोलंकी
बी-1/195, पश्चिम विहार,
नई दिल्ली-110063
2. श्री राजूसिंह जयसिंहभाई केडिया
राजनपुर, वस्त्राल
ताल0 डिस्कोल,
जिला अहमदाबाद (गुजरात)

पुनर्गठित अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड में अध्यक्ष, सदस्य सचिव सहित 24 सरकारी सदस्यों तथा 32 गैर सरकारी सदस्यों को शामिल करते हुए बोर्ड की वर्तमान संख्या 57 सदस्य हो जाएगी।

तथापि, दिनांक 8 सितम्बर, 2006 के संकल्प में दर्ज अन्य सभी निबंधन एवं शर्तें वही रहेंगी तथा उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी संबंधितों को प्रेषित की जाए तथा इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

डा. संदीप श्रीवास्तव
अपर विकास आयुक्त (हस्तशिल्प)

खान मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 11 जनवरी 2007

संकल्प

सं. ई. 1017/1/2004 हिंदी :- खान मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति के पुनर्गठन से संबंधित खान मंत्रालय के दिनांक 17 मई, 2005 के समसंख्यक संकल्प में आंशिक संशोधन करते हुए तथा गैर सरकारी सदस्य स्व. श्री तारा सिंह मील के निधन के परिणामस्वरूप रिक्त हुए स्थान पर श्री राजेन्द्र सिंह मील को गैर सरकारी सदस्य के तौर पर शामिल किया जाता है। श्री राजेन्द्र सिंह मील का कार्यकाल समिति के शेष कार्यकाल अर्थात् इस संकल्प के जारी होने की तारीख से 16 मई 2008 तक की अवधि के लिए होगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति हिंदी सलाहकार समिति के सभी सदस्यों राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसदीय राजभाषा समिति, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, योजना आयोग और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

अजिता बाजपेयी पाण्डे
संयुक्त सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 11 जनवरी 2007

सं.एफ. 9-5/2000-यू-3

जबकि “भारत इंस्टीट्यूट आफ हायर एज्युकेशन एंड रिसर्च”, चेन्नई जिसमें ‘श्री बालाजी हॉटल कालेज एण्ड हास्पिटल, चेन्नई भी शामिल है, को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के तहत इस मंत्रालय की दिनांक 4 जुलाई, 2002 की समसंख्यक अधिसूचना के द्वारा पांच वर्ष की अवधि के पश्चात समीक्षा की शर्त के आधार पर ‘सम विश्वविद्यालय’ के रूप में घोषित किया गया था।

और जबकि इस मंत्रालय की दिनांक 10 जनवरी, 2003 की समसंख्यक अधिसूचना द्वारा ‘भारत इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी’ चेन्नई नामक एक और संस्था को “भारत इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एण्ड रिसर्च” चेन्नई के क्षेत्राधिकार में तीन वर्ष की अवधि के पश्चात समीक्षा की शर्त के आधार पर शामिल किया गया था।

और जबकि इस मंत्रालय की दिनांक 2 जनवरी, 2004 की अधिसूचना संख्या एफ 9-14/2003-यू-3 के तहत उपरोक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ तीन वर्ष की अवधि के पश्चात समीक्षा की शर्त के आधार पर ‘श्री बालाजी मेडिकल कॉलेज एवं हास्पिटल,’ चेन्नई नामक एक और संस्था को “भारत इंस्टीट्यूट आफ हायर एज्युकेशन एंड रिसर्च”, चेन्नई के अधिकार क्षेत्र में लाया गया था।

और जबकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने “भारत इंस्टीट्यूट आफ हायर एज्युकेशन एंड रिसर्च” एवं इनकी संघटक संस्थाओं के कार्यकरण की समीक्षा इस उद्देश्यार्थ गठित विशेषज्ञ समिति से करवाई है और विशेष समिति की रिपोर्ट के आधार पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उपरोक्त संघटक संस्थाओं वाले “भारत इंस्टीट्यूट आफ हायर एज्युकेशन एंड रिसर्च”, चेन्नई को प्रदत्त ‘सम विश्वविद्यालय’ का दर्जा जारी रखने हेतु अनुमोदन प्रदान कर दिया है।

इसलिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा के तहत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए और इस संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर केन्द्र सरकार “भारत इंस्टीट्यूट आफ हायर एज्युकेशन एंड रिसर्च”, चेन्नई को प्रदत्त ‘सम विश्वविद्यालय’ के दर्जे को जारी रखने का अनुमोदन प्रदान करती है। सम विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र में निम्नलिखित संघटक संस्थाएं होगी:

- (i) श्री बालाजी हॉटल कालेज एण्ड हास्पिटल, चेन्नई
- (ii) भारत इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, चेन्नई
- (iii) श्री बालाजी मेडिकल कॉलेज एवं हास्पिटल, चेन्नई

2. उपरोक्त पैरा 1 में दर्जा जारी रखने संबंधी अनुमति इन शर्तों के अधीन होगी कि “‘भारत इंस्टीट्यूट आफ हायर एज्युकेशन एंड रिसर्च” तथा इनकी संघटक संस्थाएं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एवं भारतीय चिकित्सा परिषद, भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद आदि जैसे अन्य संबंधित सांविधिक पेशागत परिषदों द्वारा सम विश्वविद्यालयों के संबंध में समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों/अनुदेशों का सख्ती से अनुसरण एवं अनुपालन करेगी।

केशव देसिराजू
संयुक्त सचिव

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 04 जनवरी 2007

संकल्प

सं.1(1)/2003-हि.अ. : इस विभाग के दिनांक 31 मई, 2005 की समसंख्यक संकल्प के जरिए पुनर्गठित सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की हिन्दी सलाहकार समिति की क्र. सं. 5 तथा 13 पर उल्लिखित गैर-सरकारी सदस्यों के स्थान पर भारत सरकार ने निम्नलिखित को गैर-सरकारी सदस्य के रूप में नामित करने का निर्णय किया है :-

5. सुश्री सुशीला तिरिया, संसद सदस्य, राज्य सभा

13. डॉ. कृष्ण कुमार गोस्वामी
1764, औट्रम लाइन्स, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली - 110 009

समिति में उक्त सदस्यों का कार्यकाल समिति के सामान्य कार्यकाल की शेष अवधि के लिए होगा।

समिति के कार्य तथा अन्य बातें अपरिवर्तित रहेंगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति समिति के सभी सदस्यों, सभी राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों, प्रधान मंत्री कार्यालय, मंत्रिमण्डल सचिवालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को प्रेषित की जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प आम जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

एम. माधवन नाम्बियार
अपर सचिव

रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 05 जनवरी 2007

संकल्प

संख्या हिंदी/समिति/2004/38/2

इस मंत्रालय के दिनांक 23.6.2005 के समसंख्यक संकल्प में आंशिक संशोधन करते हुए श्री श्याम कांत रघुनाथ सनेर को श्री हकीम अनीस-उर-रहमान, जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया है, के स्थान पर इस मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति का गैर-सरकारी सदस्य नामित किया जाता है. श्री सनेर का कार्यकाल वर्तमान समिति के कार्यकाल अर्थात् 22.06.2008 तक रहेगा.

दिनांक 23.06.2005 को जारी समसंख्यक संकल्प में दी गई अन्य शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी.

आदेश

यह आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति, प्रधान मंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, लोक सभा तथा राज्य सभा सचिवालय और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों को भेज दी जाए.

यह भी आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की सूचना के लिए यह संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए.

मैथ्यू जॉन
सचिव

जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 02 जनवरी 2007

संकल्प

सं.2/1/2006-हिन्दी: जल संबंधी विषयों पर पुस्तकें मूलतः हिन्दी में लिखने के लिए प्रोत्साहन देने के संबंध में जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार ने एतद्वारा पुरस्कार योजना निम्न प्रकार से आरंभ करने का निर्णय लिया है :

उद्देश्य

2. इस योजना का मुख्य उद्देश्य ऐसे लेखकों को प्रोत्साहन देना है जो जल से संबद्ध विषयों पर पुस्तकें मूलतः हिन्दी में लिखें। इसके लिए इन विषयों पर मूलतः हिन्दी में लिखने वाले सर्वोत्तम लेखकों को पुरस्कार दिए जाएंगे।

पात्रता

3. पुरस्कार केवल भारतीय नागरिकों को दिए जाएंगे। इसमें केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के कर्मचारी भी भाग ले सकेंगे।

विषय

4. जल संबंधी निम्नलिखित विषयों पर हिन्दी में लिखी गई पुस्तकों पर प्रत्येक वर्ष पुरस्कार दिए जाएंगे।

1. फसलों के लिए जल की आवश्यकता।
2. जल का कृत्रिम पुनर्भरण
3. भूजल प्रदूषण और निदान
4. छत के वर्षा जल का संचयन
5. जल प्रबंध
6. भारत के जल स्रोत
7. सतही तथा भूजल का संयुक्त उपयोग
8. जल संसाधन विकास, आयोजना तथा अन्वेषण
9. जल वैज्ञानिक सर्वेक्षण तथा प्रेक्षण
10. भूजल संसाधनों का मूल्यांकन
11. जल जमाव तथा जल निकास
12. जलाशय आयोजना
13. कमान क्षेत्र विकास
14. जलाशय तलछट
15. बाढ़ नियंत्रण

टिप्पणी : तत्संबंधी अन्य विषयों पर लिखी गई, जो ऊपर निर्दिष्ट नहीं है पुस्तक पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि वह पुस्तक मूलतः जल से संबंधित हो।

5. इसमें शर्त यह होगी कि सरकार की संविदा के अनुसार अथवा किसी सरकारी योजना के अंतर्गत लिखी जाने वाली पुस्तकें पुरस्कार की पात्र नहीं होंगी।

6. यह भी शर्त है कि परिस्थितियों को देखते हुए यदि मूल्यांकन समिति किसी वर्ष किसी जल संबंधी विषय पर लिखी गई छः से अधिक पुस्तकों की पुरस्कार के लिए सिफारिश करती है तो भारत सरकार उस विषय की छः से अधिक पुस्तकों को पुरस्कार दे सकती है।

7. पुस्तक का लेखक, चाहे पुस्तक पांडुलिपि हो या पहले से छपी हुई, इस प्रयोजन के लिए निर्धारित की जाने वाली तारीख तक निदेशक/संयुक्त निदेशक (रा.भा.) श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली को उसकी प्रतियां देगा।

8. निर्धारित तारीख के बाद प्रस्तुत की गई पुस्तकें / पांडुलिपियां उस वर्ष पुरस्कारों के लिए स्वीकार नहीं की जाएंगी।

9. पुरस्कार के लिए सरकार अपनी ओर से किसी पुस्तक को विचारार्थ शामिल कर सकेगी।

10. लेखक अपनी जिन पुस्तकों / पांडुलिपियों को पुरस्कार के लिए प्रस्तुत करेगा उन पर उसका/उनका कापी-राइट बना रहेगा।

11. पुरस्कार के लिए विचारार्थ पुस्तकों / पांडुलिपियों को प्रस्तुत करने की निर्धारित तिथि वाले वर्ष के अंतर्गत लिखी गई अथवा प्रकाशित की गई पुस्तकें / पांडुलिपियां ही पुरस्कार के लिए विचाराणीय होंगी।

12. पुरस्कार के प्रयोजन के लिए जिन पुस्तकों / पांडुलिपियों पर एक बार विचार कर लिया जाएगा उन्हें बाद के वर्षों में प्रस्तुत नहीं किया जा सकेगा।

13. किसी एक वर्ष के दौरान पुरस्कार के लिए कितनी पुस्तकों पर विचार किया जाए यह इस मूल्यांकन समिति की सिफारिश पर ही आधारित होगा।

14. यदि किसी वर्ष मूल्यांकन समिति किसी भी पुस्तक को पुरस्कार दिये जाने योग्य नहीं पाती तो उस वर्ष कोई भी पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। तथापि, भारत सरकार मूल्यांकन समिति की सलाह पर ऐसे किसी अथवा सभी लेखकों को जिन्होंने पुस्तकें / पांडुलिपियां प्रस्तुत की हों, उनकी गुणवत्ता (क्वालिटी) विषयवस्तु साहित्यिक कुशलता के आधार पर सांत्वना पुरस्कार दे सकेगी बशर्ते सिंचाई के किसी एक विषय में पुस्तकों / पांडुलिपियों के लिए दी जाने वाली सांत्वना पुरस्कार की राशि पांच हजार रूपए से अधिक नहीं होगी।

15. पुरस्कार प्रदान किए जाने हेतु विचारार्थ प्राप्त हुई पुस्तकों / पांडुलिपियों की जांच मूल्यांकन समिति द्वारा की जाएगी। इस समिति के निम्नलिखित सदस्य होंगे :

- | | | |
|--|---|------------|
| 1. संयुक्त सचिव (प्रशा.), जल संसाधन मंत्रालय | - | अध्यक्ष |
| 2. आयुक्त (पीपी), जल संसाधन मंत्रालय | - | सदस्य |
| 3. आयुक्त (परियोजना), जल संसाधन मंत्रालय | - | सदस्य |
| 4. आयुक्त (भूजल), जल संसाधन मंत्रालय | - | सदस्य |
| 5. निदेशक (रा.भा.)/संयुक्त निदेशक (रा.भा.), जल संसाधन मंत्रालय | - | सदस्य सचिव |

इस समिति की सिफारिशें सचिव (जल संसाधन) के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की जाएंगी।

मनोनीत सदस्य

आवश्यकतानुसार समिति जल संबंधी विषयों पर विशेषज्ञों को सदस्य मनोनीत कर सकेगी।

यदि मूल्यांकन समिति के किसी सदस्य को पुरस्कार दिए जाने पर विचार किया जा रहा है तो वह मूल्यांकन समिति का सदस्य नहीं रहेगा और भारत सरकार उसके स्थान पर किसी दूसरे व्यक्ति को आमंत्रित करेगी।

मूल्यांकन समिति का निर्णय अंतिम होगा।

पुरस्कार की राशि :

प्रथम पुरस्कार (एक)	-	25,000/- रुपये
द्वितीय पुरस्कार (एक)	-	15,000/- रुपये
तृतीय पुरस्कार (एक)	-	10,000/- रुपये
सांत्वना पुरस्कार (तीन)	-	5,000/- रुपये (प्रत्येक)

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सभी राज्य सरकारों तथा संघ राज्य प्रशासकों एवं राज्य प्रशासनों, राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसदीय कार्य विभाग, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों / विभागों को भेज दी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प जन साधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

के. एस. रामसुब्बन
संयुक्त सचिव

MINISTRY OF TEXTILES
OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER (HANDICRAFTS)

New Delhi-110066, the 5th January 2007

RESOLUTION

No. K-12012/5/16/2006-P&R 6056.— The All India Handicrafts Board was reconstituted vide resolution of even No. dated 08th September, 2006 for a tenure of two years. The Government of India has decided to induct the following candidates as new non-official Member in the All India Handicrafts Board while retaining all officials and non-official members of the existing All India Handicrafts Board constituted vide resolution dated 08th September, 2006, 23rd October, 2006, 22nd & 27th November 2006, 5th, 12th, 21st and 22nd December, 2006:

1. Shri Dharmender Solanki
B-1/195, Paschim Vihar
New Delhi-110063

2. Shri Rajusinh Jaysinhbhai Kedia
Rajanpur, Vastral
Tal. Daskol
Dist. Ahmedabad (Gujrat)

The present strength of the Board shall be 57 Members comprising of Chairman, 24 official Members including Member Secretary and 32 non-official Members, in the reconstituted All India Handicrafts Board.

All other terms and conditions recorded in the resolution dated 08th September, 2006 will, however, remain same and unchanged.

ORDER

Ordered that a copy of this resolution be communicated to all concerned and that it be published in the Gazette of India.

Dr. SANDEEP SRIVASTAVA
Addl. Development Commissioner (Handicrafts)

MINISTRY OF MINES

New Delhi, the 11th January 2007

RESOLUTION

No. E-11017/1/2004-Hindi. In partial modification of this Ministry's Resolution of even No. dated 17th May, 2005 regarding reconstitution of Hindi Salahkar Samiti of the Ministry of Mines and the vacancy caused due to death of non official member Late Sh. Tara Singh Meel. Sh. Rajender Singh Meel is included as non official member. The Tennure of Shri Rajender Singh Meel will be for the remaing period of the Samiti i.e. w.e.f. the date of issue of this resolution and upto 16th May, 2008.

ORDER

Ordered that a 'copy of this Resolution be communicated to all the Members of this Committee, President's Secretariat, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Committee of Parliament on Official Language, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha

Secretariat, Comptroller and Auditor General of India and all Ministries and Departments of the Government of India.

It is also ordered that a copy of this Resolution be published in the Gazette of India for the information of general public.

AJITA BAJPAI PANDE
Jt. Secy.

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

New Delhi, the 11th January 2007

(No. F.9-5/2000-U.3

Whereas the "Bharath Institute of Higher Education & Research (BIHER)", Chennai comprising 'Sree Balaji Dental College and Hospital', Chennai was declared a 'Deemed-to-be-University' under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 vide this Ministry's notification of even number dated the 4th July, 2002 subject to a review after five years.

And whereas, 'Bharath Institute of Science and Technology', Chennai was included under the ambit of the "BIHER", Chennai for the purpose of the aforesaid Act vide this Ministry's notification of even number dated the 10th January, 2003 subject to a review after three years.

And whereas, one more institution namely, 'Sree Balaji Medical College and Hospital', Chennai was also included under the ambit of the "BIHER", Chennai for the purpose of the aforesaid Act vide this Ministry's notification No.F.9-14/2003-U.3, dated 2nd January, 2004 subject to a review after three years.

And whereas, the University Grants Commission (UGC) has reviewed the functioning of the "BIHER", Chennai and its constituent institutions through an Expert Committee constituted for this purpose. And, on the basis of the report of the Expert Committee, the UGC has approved continuation of the status of 'Deemed-to-be-University' to "BIHER", Chennai comprising the said constituent institutions.

The Central Government, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, and on the advice of the UGC in the matter, do hereby accord approval to the continuance of the status of 'Deemed-to-be-University' granted to "Bharath

Institute of Higher Education & Research (BIHER)", Chennai. This Deemed-to-be-University comprises the following constituent institutions under its ambit:-

- (i) Sree Balaji Dental College and Hospital, Chennai
- (ii) Bharath Institute of Science and Technology, Chennai, and
- (iii) Sree Balaji Medical College and Hospital, Chennai.

2. The continuance of the status allowed as in paragraph 1 above shall be subject to the condition that the "Bharat Institute of Higher Education & Research", Chennai as well as all its constituent institutions will continue to strictly follow & adhere to the guidelines/instructions issued by the UGC / All India Council for Technical Education (AICTE) & other relevant statutory professional councils such as Medical Council of India (MCI), Dental Council of India (DCI), etc., from time to time, as are applicable to 'Deemed-to-be-Universities'.

KESHAV DESIRAJU
Jt. Secy.

MINISTRY OF COMMUNICATIONS & INFORMATION TECHNOLOGY
(DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY)

New Delhi-110003, the 4th January 2007

RESOLUTION

No.1(1)/2003-H.S. : The Government of India have decided to substitute the existing non-official members at Sl. No. 5 & 13 of the Hindi Advisory Committee for the Department of Information Technology, re-constituted vide this Department's Resolution of even No. dated 31st May, 2005, with the following :-

5. Ms Sushila Tiriya, Member of Parliament, Rajya Sabha
13. Dr. K.K. Goswami
1764, Outram Lines, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009

The tenure of above members in the Committee would be for the residual term of the Committee.

The functions of the Committee and all other things shall remain unchanged.

ORDER

Ordered that a copy of this Resolution be communicated to all the members of the Committee, all State Governments and Union Territory Administrations, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Ministry of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Comptroller & Auditor General of India and all Ministries/Departments of the Government of India.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

M. MADHAVAN NAMBIAR
Addl. Secy.

**MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)**

New Delhi, the 5th January 2007

RESOLUTION

No. Hindi/Samiti/2004/38/2

In partial modification of the Ministry of Railway's Resolution of even number dated 23. 06.2005, Sh. Shyam Kant Raghunath Saner is nominated as non-official member of the Railway Hindi Salahakar Samiti in place of Sh. Hakim Anis-ur-Rahman, who resigned from Railway Hindi Salahakar Samiti. The tenure of Shri Saner would be till the tenure of the present committee i.e. 22.06.2008.

Other terms and conditions given in the Resolution of even number dated 23.06.2005 will remain unchanged.

ORDER

Ordered that a copy of this Resolution be communicated to the Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Ministry of Parliamentary Affairs, Lok Sabha and Rajya Sabha Secretariats and all Ministries and Department of Government of India.

Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

MATHEW JOHN
Secy. (Railway Board)

MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 2nd January 2007

RESOLUTION

No.2/1/2006-Hindi: The Ministry of Water Resources, Government of India has hereby, decided to introduce an award scheme to encourage the writing of books originally in Hindi on subjects related to water.

OBJECTIVE

2. The main objective of this scheme is to encourage the original writing of books in Hindi on subjects related to water. For this purpose, awards will be given to the best authors for original writing of books in Hindi on these subjects.

ELIGIBILITY

3. Indian citizens only shall be eligible for the Award. Central and State Government officers shall also be eligible to participate in this award scheme.

SUBJECT

4. Awards will be given every year for the writing of original books in Hindi on the following subjects related to water.

1. Requirement of Water for crops.
2. Artificial recharge of Water.
3. Ground Water pollution and its remedies.
4. Roof top rain water harvesting.
5. Water management.
6. Water resources of India.
7. Conjunctive use of surface and Ground Water.
8. Development, Planning and Investigation of Water Resources.
9. Hydrological surveys and observations.
10. Assessment of Ground Water Resources.
11. Water logging and Drainage.
12. Reservoir Planning.
13. Command Area Development.
14. Reservoir Sediment.
15. Flood control.

Note: Books written on other allied subjects not specified above may also be considered provided these books basically relate to the water.

5. Provided that any book written under a contract with the Government or Under any other Government Scheme shall not be eligible for the award.

6. Provided also that keeping in view the circumstances, the Evaluation Committee recommends more than Six books written on Water subject for grant of awards in a particular year, Government of India may also grant more than Six awards that year.
7. Author of the book, shall submit 10 copies of the book whether in manuscript or printed form to the Secretary to the Government of India, Ministry of Water Resources, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi, by the date prescribed for the purpose.
8. Books/Manuscripts submitted after the stipulated date shall not be considered for grant of award that year.
9. Government may at its own initiative include any book for consideration for grant of award.
10. The authors shall retain a copyright on the books/manuscripts submitted for consideration for grant of award.
11. Books/manuscripts written or published during the proceeding year on the prescribed date of the year for submission of the books/manuscripts shall only be considered for the grant of the award.
12. Books/manuscripts once considered for the purpose of grant of award shall not be eligible for consideration in the following years.
13. How many books/manuscripts once considered for grant of award in a particular year, will be based on the recommendation of the evaluation committee.
14. In case, the Evaluation Committee does not find any book suitable for the grant of the award in a particular year, no award shall be given during the year. However, the Government of India, on the advice of the Evaluation Committee may give consolation prize to any or all authors who have submitted books/manuscripts on the basis of quality, content, literary competence of the same provided that the amount of consolation prize to be given for books/ manuscripts on any one subject related to water shall not exceed Rs.5000/- (five thousand only.)
15. The Books/Manuscripts submitted for consideration for grant of award shall be evaluated by the Evaluation Committee with the following members:
 1. Joint Secretary (Admn.), Min. of WR - Chairman
 2. Commissioner (PP), Min. of WR - Member
 3. Commissioner (PR), Min. of WR - Member
 4. Commissioner (Ground water), Min. of WR - Member
 5. Director/Joint Director (OL), Min. of WR - Member Secretary.

The Recommendation of the committee will be submitted to the Secretary(WR) for approval.

CO-OPTED MEMBERS

If required, the committee may co-opt specialists on subjects related to water as members of the committee.

In case a member of the Evaluation committee is being considered for grant of the award, such person shall cease to be member of the Evaluation committee and Government of India may invite some other person to function on his place as member of the committee.

The decision of the Evaluation committee shall be final.

AMOUNT OF AWARD

First Award (One)	-	Rs.25,000/-
Second Award (One)	-	Rs.15,000/-
Third Award (One)	-	Rs.10,000/-
Consolation (3)	-	Rs.5,000/- (each)

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution may communicated to all State Governments, President's Secretariat, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Union Territory Administrations, Department of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Comptroller and auditor General of India and all the Ministries/Departments of Government of India.

Ordered also that the resolution be published in the Gazette of India for general information.

K. S. RAMASUBHAN
Jt. Secy.